



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-30102024-258354
CG-MH-E-30102024-258354

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4322]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 28, 2024/कार्तिक 6, 1946

No. 4322]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 28, 2024/KARTIKA 6, 1946

रेल मंत्रालय

[पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

मुंबई, 28 अक्टूबर, 2024

का.आ. 4698(अ).—केंद्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है की धारा 20 क के उपखंड(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए ग्राम आथर तहसील धार जिला धार की यह भूमि जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाब्ध अनुसूची में दिया गया है मध्य प्रदेश राज्य के धार जिले में इंदौर दाहोद नई बड़ी रेलवे लाइन हेतु विशेष रेल परियोजना के निष्पादन के लिए आवश्यक है, ऐसी भूमि के अर्जन करने के घोषणा करती है।

उक्त भूमि के लिये इच्छुक कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20 घ की उप-धारा(1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा।

प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात्, अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), भू अर्जन अधिकारी तहसील धार जिला धार को लिखित रूप में किया जाएगा जो कि आक्षेप का आधार होगा। सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या कानूनी प्रेक्टीशनर (अधिवक्ता) के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई और जांच करने के पश्चात्, यदि आवश्यक समझे तो, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों के लिए अनुमति देगा या अनुमति प्रदान नहीं करेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा(2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि की भूमि योजना और अन्य ब्योरे उपलब्ध है और इच्छुक व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उक्त उल्लेखित कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य के धार जिले में दाहोद से इंदौर जाने वाली नई बीजी लाइन परियोजना (झाबुआ, सरदारपुर, धार और पिथामपुर के मध्य से) के निर्माण हेतु प्रभावित होने वाली अर्जनाधीन भूमि की संरचना सहित या संरचना रहित संक्षिप्त विवरण

क्रम सं.	जिले का नाम	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	प्रभावित क्षेत्रफल हेक्टेयर में
1	धार	धार	आथर	23/3	0.104
2				22/1	0.049
3				39/2/1/5	0.162
4				39/2/1/1/2/2/1/1	0.070
5				39/2/1/1/2/2/1/2	0.007
6				39/2/1/1/2/2/2	0.007
7				39/2/1/1/2/3	0.043
8				39/2/1/1/2/1/1/1/1/1	0.188
				39/2/1/1/1/1	0.017
				39/2/1/1/1/2	0.341
9				39/2/1/6/1	0.095
10				11/2/2/1	0.351
11				39/2/2/1	0.478
12				15/1/1	0.038
13				15/3/1	0.081
14				15/4/1	0.093
15				15/5/1	0.079
16				15/6/1	0.065
17				15/7/1	0.055
18				11/1/2/1	0.107
19	11/1/1/1	0.095			
20	23/1	0.182			
	कुल				2.707

[फा. सं. ई. ऑफिस (E-514544-36)]

धीरज कुमार, मुख्य अभियन्ता निर्माण-IV

MINISTRY OF RAILWAYS
[Western Railway (Construction Organization)]
NOTIFICATION

Mumbai, the 28th October, 2024

S.O. 4698(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section(i) of section 20A of the Railways Act, 1989(24 of 1989) (here in after referred in as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose, this land of **Village- Athar Tehsil-Dhar District- Dhar**, the brief description of which has given in the schedule annexed here to, is required for execution of Special Railway Project for Indore- Dahod new BG railway line in Dhar district of Madhya Pradesh state. Declares its intention to acquire such land in the State of Madhya Pradesh, hereby declares its intention to acquire such land:

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for a foresaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act:

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, Sub-Divisional Officer & Land Acquisition Officer, Tehsil Dhar District-Dhar (M.P.), in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (II) of section 20(D) of the said act shall be final.

The Land Plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person aforesaid Office of the Competent Authority.

Schedule

Brief description, with or without structure, of the land under acquisition that will be affected for the construction of the new BG line project from Dahod to Indore (through Jhabua, Sardarpur, Dhar and Pithampur) in Dhar district of Madhya Pradesh state.

Serial no.	Name of District	Name of Tehsil	Name of Village	Khasra Number	Area Affected
					In Hector
1	Dhar	Dhar	Athar	23/3	0.104
2				22/1	0.049
3				39/2/1/5	0.162
4				39/2/1/1/2/2/1/1	0.070
5				39/2/1/1/2/2/1/2	0.007
6				39/2/1/1/2/2/2	0.007
7				39/2/1/1/2/3	0.043
8				39/2/1/1/2/1/1/1/1/1	0.188
				39/2/1/1/1/1	0.017
				39/2/1/1/1/2	0.341
9				39/2/1/6/1	0.095
10				11/2/2/1	0.351
11				39/2/2/1	0.478
12				15/1/1	0.038
13				15/3/1	0.081
14				15/4/1	0.093
15				15/5/1	0.079
16				15/6/1	0.065
17				15/7/1	0.055
18				11/1/2/1	0.107
19				11/1/1/1	0.095
20	23/1	0.182			
				Total	2.707

[F. No. E.- Office (E-514544-36)]

DHEERAJ KUMAR, Chief Engineer Construction-IV